

बातचीत के दौरान आपको प्रश्न पूछने की भी आवश्यकता होती है पर यहाँ पर अगर आपको **wh- words** की सही जानकारी नहीं है तो प्रश्न कुछ गलत भी हो सकता है और आपको अपेक्षित उत्तर भी मिलने की संभावना कम है।

इसलिए आज के इस **lesson** में हम सभी प्रश्न वाले शब्दों को जानेंगे और उनके सही प्रयोग को भी।

Basically 3 तरह के question types होते हैं -

Yes/No question: जिनका answer केवल "yes or no" (हाँ या ना) में दिया जाता है जैसे -

Do you want coffee?

No thank you./ Yes, please.

Question-word (WH) question: जिनका answer "information" होता है जैसे -

Where do you live?

In Ahmedabad. / I live in Ahmedabad.

Choice question: जिनका answer - question में ही छिपा होता है, इस तरह के questions में आपको choice

दी जाती है। जैसे -

Do you want tea or coffee?

Tea please.

आज हम इस **lesson** में **Wh- words** वाले कुछ **questions** सीखेंगे और साथ ही जानेंगे कि उनके **answer** किस तरह से दें

आप सभी **question words** को जानते होंगे। **Question words** का मतलब **Wh- words**. जैसे - **Who, Where, When, What etc...** आइए हम जानते हैं इंग्लिश में **use** होने वाले **question words**, उनका किस तरह से **use** किया जाता है और कैसे उनके **answers** दें।

1) WHO (कौन) - जब हमें किसी **person (व्यक्ति) के बारे में पूछना हो तो **question** को **Who** से **start** करते हैं। (**asking what or which person or people (subject)**) जैसे**

1. **Who is the best cricket player in the world?** (विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी कौन है?)
2. **Who is that strange guy over there?** (वहाँ पर वह अपरिचित आदमी कौन है?)
3. **Who is at the door?** (दरवाजे पर कौन है?)
4. **Who opened the door?** (दरवाजा किसने खोला?)

इन सभी में हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। **Who** से शुरू होने वाले **questions** का **answer** आप सिर्फ एक शब्द में भी दे सकते हैं (उस व्यक्ति का नाम बता कर) या फिर **Who** को उस व्यक्ति के नाम से **replace** कर पूरे **sentence** में भी **answer** दिया जा सकता है जैसे -

- 1) **Who is the best cricket player in the world?** (विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी कौन है?)
MS Dhoni/ MS Dhoni is the best cricket player in the world.
- 2) Who opened the door?
Anuj / Anuj opened the door.

2) Whom (किसको/ किसे) - किसी **person** के बारे में पूछता है और यह वाक्य में एक **object** की तरह कार्य करता है।

Whom did you see? (आपने किसे देखा?)

Whom do you talk for your loan in the bank? (आप बैंक में अपने लोन के लिए किससे बात करते हैं?)

Whom did you give money/cheque/order/invoice? (आपने किसको पैसा दिया / चेक / ऑर्डर / चालान दिया?) **invoice** - चालान/ बिल)

Whom should I pay my fees? (मुझे अपनी फीस किसको देनी चाहिए?)

Whom do we contact in case of fire? (आग के घटना के समय हम किससे संपर्क करते हैं?)

Who या Whom - **Who** वाक्य के **subject** (विषय) को बताने के लिए उपयोग किया जाता है। **Whom** का इस्तेमाल **verb** (क्रिया) के **object** को बताने के लिए किया जाता है। कर्ता क्रिया करता है और **object** कार्रवाई प्राप्त करता है अर्थात उस पर कार्य किया जाता है (**receiver of an action**)। कभी-कभी **Who/Whom** के उपयोग पर **confusion** हो जाता है। हम ऐसी स्थितियों को सरल **trick** के द्वारा समझ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि **question Who** से **start** होगा या **Whom** से तो इस **table** को ध्यान से देखिए -

Subject Pronouns - Object Pronouns

<u>Who</u>	<u>Whom</u>
I	Me
We	Us
He / She / It	Him / Her / It
They	Them

अब यह स्पष्ट है कि **Who**, '**He, They**' सर्वनाम और '**Whom, 'Him, They**' **object** सर्वनाम हैं।

3) Whose (किसका) - Whose से start हुए questions ownership (स्वामित्व/ वस्तु किसकी है) के बारे में पूछते हैं (We use whose to ask a question about possession)

Whose are these keys? (ये किसकी चाबियां हैं?)

Whose birthday is it today? (आज किसका जन्मदिन है?)

Whose gloves are these? (ये दस्ताने किसके हैं?)

4) WHERE (कहाँ) - Where का use place या location के बारे में पूछने के लिए होता है। जैसे -

Where is the metro station? (मेट्रो स्टेशन कहाँ है?)

Where do you live? (आप कहाँ रहते हैं?)

Where are my shoes? (मेरे जूते कहाँ हैं?)

अगर आपसे यह questions पूछे जाते हैं तो आप इनका answer अपने सन्दर्भ में देंगे जैसे you को I से और my को your से replace कर देंगे। जैसे -

It is in sector 45. (यह सेक्टर 45 में है।)

I live in New Delhi. (मैं नई दिल्ली में रहता हूँ।)

Your shoes are in shoe rack. (आपके जूते शू रैक में हैं।)

(अगर आप ध्यान दें तो इन सभी में हमने जगह और location बताई है - sector 45, New Delhi, shoe rack)

5) WHEN (कब) - When का use समय (time) या कोई occasion के बारे में पूछने के लिए होता है। जैसे -

When does this shop open? (यह दुकान कब खुलती है?)

When is your birthday? (आपका जन्मदिन कब है?)

When are we going to finish this project? (हम कब इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे?)

इनके answer में आपको समय बताना है जैसे -

This shop opens at 10 am. (यह दुकान सुबह 10 बजे खुलती है।)

My birthday is next month/ on 25th. (मेरा जन्मदिन अगले महीने / 25 तारीख को है।)

We are going to finish this project by the end of this month. (हम इस प्रोजेक्ट को इस महीने के अंत तक समाप्त कर लेंगे।)

ध्यान रहें इन सभी questions (WH- questions) के answer आप सिर्फ एक word में भी दे सकते हैं (at 10 am/ next month/ in New Delhi etc...) सिर्फ उन questions को छोड़ कर जो Why से start होते हैं।

6) **WHAT (क्या)** - जब हमें कुछ specific information चाहिए होती है, तब question को What से start करते हैं। इसका use - repetition or confirmation के लिए भी किया जाता है जैसे -

What is your name? (आपका नाम क्या है?)

What is her favorite color? (उसका पसंदीदा रंग क्या है?)

What is the time? (समय क्या हुआ?)

इनके answers आप एक word में भी दें सकते हैं और पूरे sentence में भी। यह depend है कि आप किस व्यक्ति से और कहाँ बात कर रहे हैं। अगर आप interview दे रहे हो तो अच्छा होगा कि आप answer पूरे वाक्य में दें, लिखते समय भी पूरे वाक्य में हो answer दें। कभी कभी जब interview में भी एक word में answer दिया जा सकता है। जैसे -

Amit./ My name is Amit. (अमित।/ मेरा नाम अमित है।)

Yellow./ Her favorite color is yellow. (पीला।/ उसका पसंदीदा रंग पीला है।)

It's 11:30 pm. (रात के 11:30।)

7) **WHY (क्यों)** - जब हमें कोई काम क्यों हुआ, इसका explanation या reason (स्पष्टीकरण) जानना होता है तब question को Why से start करते हैं जैसे -

Why do you need money? (आपको पैसे की आवश्यकता क्यों है?)

Why are you late? (तुम्हें देरी क्यों हुई?)

Why does he complain all the time? (वह हर समय शिकायत क्यों करता है?)

Normally इस तरह के questions का answer **Because...** से शुरू किया जाता है जैसे -

Because I have lost my job. (क्योंकि मैंने अपनी नौकरी खो दी है।/ मेरी नौकरी चली गयी है।)

Because I missed my bus. (क्योंकि मेरी बस छूट गई।)

Because it is in his nature. (क्योंकि यह उसके स्वभाव में है।)

8) WHICH (कौन सा) - जब हमें choice के बारे में पूछना हो तो हम question को Which से start करेंगे।

Which dish did you order - the pizza or the pasta? (आपने कौन सी डिश ऑर्डर की - पिज़्ज़ा या पास्ता?)

Which day do you prefer for a meeting - today or tomorrow? (आप कौन सा दिन मीटिंग के लिए पसंद करते हैं - आज या कल?)

Which is better - this one or that one? (कौन सा बेहतर है - यह या वह?)

9) HOW (कितना/ कैसे/ कैसा) - How का use कोई कार्य किस तरह से किया गया है, यह पूछने के लिए किया जाता है।

How do you cook pasta? (आप पास्ता कैसे बनाते हैं?)

How does he know the answer? (वह जवाब कैसे जानता है?)

How can I learn English quickly? (मैं जल्दी से अंग्रेजी कैसे सीख सकता हूँ?)

इस तरह के questions के answer देते समय आपको detail देने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे -

How do you cook pasta? (आप पास्ता कैसे बनाते हैं?)

I boil the pasts first. Then I stir fry all vegetables in butter and add pasta in that. (मैं सबसे पहले पास्ता को उबालता हूँ। फिर मैं मक्खन में सभी सब्जियां भूनता हूँ और उस में पास्ता मिलाता हूँ।)

Questions में How के साथ अलग अलग expressions use किये जाते हैं और questions पूछे जाते हैं -

10) How much (कितना) - uncountable nouns की quantity या a price के बारे में पूछने के लिए use होता है। (uncountable nouns - nouns जिनकी गिनती ना की जा सकें।)

How much time do you have to finish the test? (टेस्ट खत्म करने के लिए आपके पास कितना समय है?)

How much money will I need? (मुझे कितने पैसे की आवश्यकता होगी?)

11) How many (कितना) - countable nouns की quantity के बारे में पूछने के लिए -

How many days are there in April? (अप्रैल में कितने दिन होते हैं?)

How many people live in this city? (इस शहर में कितने लोग रहते हैं?)

12) How often (कितनी बार) - frequency के बारे में पूछने के लिए **use** होता है कि कोई कार्य आप कितनी बार करते हैं

How often do you visit your grandmother? (आप अपनी दादी से कितनी बार मिलने जाते हैं?)

How often does she study? (वह कितनी बार पढ़ती है?)

13) How far (कितना दूर) - distance (दूरी) के बारे में **use** होता है।

How far is the university from your house? (आपके घर से विश्वविद्यालय कितनी दूर है?)

How far is the bus stop from here? (यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है?)

14) How long (कितना लंबा) - समय अवधि के बारे में पूछने के लिए प्रश्न के **How long** से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे -

How long will it take? (कितनी देर लगेगी?)

इस प्रश्न का **answer** आप समय को बता कर दे सकते हैं -

How long will it take? - around 15 minutes (लगभग 15 मिनट)

15) How old (कितना पुराना/ कितनी उम्र) - किसी वस्तु या व्यक्ति की age पूछने के लिए प्रश्न के **How long** से **start** करना चाहिए। जैसे -

How old are you? (आप की उम्र क्या है?)

How old this monument is? (यह स्मारक कितना पुराना है?)

यहाँ पर **answer** देने के लिए **years** का **use** करते हैं - जैसे

How old are you? - I am 25 years old./ I am 25 (हमारे **self introduction** में हमने सीखा था कि किस तरह से इसका **answer** दें।)

How old this monument is? - around 200 years old (लगभग 200 साल पुराना)

16) Yes/ No questions

कुछ **questions helping verbs** की मदद से भी बनाए जाते हैं जिनके **answers** केवल **yes** और **no** में दिए जाते हैं। **Helping verbs** जैसे - **is/am/ are/ was/ were/ do/ does/ did/ has/ have/ had/ will/ shall etc...**

Questions में इन्हें सबसे पहले लगाया जाता है -

Helping verb + subject + verb + object +?

Is it going to be cold tomorrow? (क्या कल ठंडा होने वाली है?)

(इसका **simple sentence** होगा - **It is going to be cold tomorrow.** इस तरह के **questions** बनाने बहुत ही आसान है। सिर्फ **helping verb** को **subject** से पहले **use** करें और **sentence** को **question mark** से **end** करें।

Are you going to take the car today? (क्या आप आज कार ले जा रहे हैं?)

(You're going to take the car today.)

Can you understand Chinese? (क्या आप चीनी को समझ सकते हैं?)

(You can understand Chinese.)

Would he mind switching seats with me? (क्या वह मेरे साथ सीटें बदलने का मानेगा?)

(He would mind switching seats with me.)

Will we be stopping by the gas station later? (क्या हम बाद में गैस स्टेशन से रुकेंगे?)

(We'll be stopping by the gas station later.)

Do you like chocolate? (क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है?)

Do I sound annoying when I talk? (जब मैं बात करता हूँ तो क्या मैं गुस्से में लगता हूँ?)